



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र 1946 (श0)
(सं0 पटना 323) पटना, वृहस्पतिवार, 21 मार्च 2024

सं0 1/खेल, 1-03/2024-354
खेल विभाग

संकल्प

15 मार्च 2024

विषय:— राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

1. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-01/2024-37, दिनांक-09.01.2024 द्वारा नए खेल विभाग (Department of Sports) का गठन किया गया है।

2. सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में जनसंख्या एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेल विद्या को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। यदि पूर्व से आधारभूत संरचना मौजूद है तो उन्हें विकसित करने हेतु अथवा नये सिरे से आवश्यकतानुसार भूमि का अधिग्रहण कर इन संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। इसमें सभी प्रचलित खेल विद्या हेतु मैदान के अतिरिक्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, दल प्रबंधकों एवं तकनीकी पदाधिकारियों के लिए आवासन एवं अन्य सुविधाये होगी। इन अवसंरचनाओं के निर्माण से पूरे राज्य में खेल का माहौल विकसित होगा।

3. प्रस्ताव पर दिनांक-15.03.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-79 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० बी० राजेन्द्र,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 323-571+100-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>